



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 31.10.2021

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित अभियुक्त (मुख्य आरोपी/मास्टरमाईड) गिरफ्तार, कब्जे से 01 डीबीबीएल गन मय 16 जिन्दा कारतूस, 01 रायफल 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, एक रिवाल्वर 32 बोर मय 24 जिन्दा कारतूस व 12 खोखा कारतूस,01 पुलिन्दा सील सर्वे मोहर जीन्स पैन्ट व स्विफ्ट डिजायर कार बरामद।

दिनांक 31.10.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 946/2021 धारा 302 भादवि के अंतर्गत हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त यशपाल सिंह पुत्र हरकेश सिंह निवासी ग्राम भटेल थाना हाफिजपुर जनपद हापुड वर्तमान निवासी एस्कोर्ट कालोनी कस्बा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर को गैलेक्सी वेगा गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 डीबीबीएल गन मय 16 जिन्दा कारतूस,01 रायफल 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, एक रिवाल्वर 32 बोर मय 24 जिन्दा कारतूस व 12 खोखा कारतूस,01 पुलिन्दा सील सर्वे मोहर जीन्स पैन्ट व स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुए है।

विवरण:

अभियुक्त यशपाल सिंह द्वारा पैसो के लेनदेन को लेकर अपने साथ काम करने वाले मनजीत नागर की अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की गई थी।

अभियुक्त का विवरण :


यशपाल सिंह पुत्र हरकेश सिंह निवासी ग्राम भटेल थाना हाफिजपुर जनपद हापुड हाल निवासी एस्कोर्ट कालोनी कस्बा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 946/2021 धारा 302 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण:

1. एक डीबीबीएल गन मय 16 जिन्दा कारतूस 12 बोर
2. एक रायफल 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. एक रिवाल्वर 32 बोर मय 24 जिन्दा कारतूस व 12 खोखा कारतूस 32 बोर
4. एक पुलिन्दा सील सर्वे मोहर जीन्स पैन्ट
5. स्विफ्ट डिजायर गाडी नं0 एचआर 51 बीएच 2496



#पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की थाना बिसरख पुलिस की महिला सुरक्षा इकाई टीम द्वारा घर से 02 बच्चों के साथ मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण निकली महिला को परिजनों से मिलाया ।

दिनांक 31.10.2021 को थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण दो छोटी बच्चियों को लेकर घर से बाहर निकल गई और घर का रास्ता भूल गई, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा काफी खोजने के उपरान्त थाना

बिसरख की महिला सुरक्षा इकाई टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये 4 घंटे की मशक्कत के बाद महिला व दोनों बच्ची को उनके घर सकुशल घर पहुँचाया गया ।